

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/स्टेशनरी/04/2021-22. एम्स. जेडीएच

# अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में स्टेशनरी वस्तुओं के लिए

## कोटेशन का आमंत्रण

पुछताछ संख्या : प्रशासन/सामान्य/स्टेशनरी/04/2021-22.एम्स.जेडीएच

पुछताछ जारी करने की तिथि : 07 जनवरी, 2022

जमा करने की अंतिम तिथि : 14 जनवरी 2022 अपराह्न 03.00 बजे ।



## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज - II, जोधपुर -342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291-2740741, ईमेल: [procurement@aiimsjodhpur.edu.in](mailto:procurement@aiimsjodhpur.edu.in)

[www.aiimsjodhpur.edu.in](http://www.aiimsjodhpur.edu.in)

## स्टेशनरी वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण एम्स जोधपुर

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। स्टेशनरी वस्तुओं के लिए नियम एवं शर्तों एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 14.01.2022 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफों में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए—  
" स्टेशनरी वस्तुओं के लिए कोटेशन 2021-22 "

पुछताछ संख्या: प्रशासन/स्टेशनरी/04/2021-22. एम्स. जेडीएच 14.01.2022 को

अपराह्न 03.00 बजे

### 1. नियम और शर्तें:-

- (क) निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैंक्स / ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- (ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स में जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोड़ा जाना अनिवार्य हैं।
- (ग) स्टेशनरी वस्तुओं की दरों को भारतीय रुपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।
- (घ) स्टेशनरी वस्तुओं की दरों को माल भाडा शुल्क, बीमा, स्थापना( स्टेशनरी स्टोर तक पहुँचाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।
- (ङ) स्टेशनरी वस्तुओं की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट-छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता है तो कोटेशन को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।
- (च) स्टेशनरी वस्तुओं की दरें कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दे पर किसी भी निविदा के उद्घरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।
- (छ) एल-1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेश पाने का मानदंड नहीं होगा जब तक दरें वाजिब(रिजनेबल) तथा उचित(जस्टीफाइड) न हो।
- (ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आरटीजीएस/एनईएफटी का विवरण आपूर्तिकता के लेटर हेड पर उद्घरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य हैं।
- (झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित शर्तें पूरा करने का स्व-सत्यापित प्रति उद्घरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है—

:- फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।

:- फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना।

:- फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार ब्लैक लिस्टेड(अवैध) नहीं किया गया।

- (ज) अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्धरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेशन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।
- (ट) स्टेशनरी वस्तुओं की आपूर्ति आदेश के 7 दिन के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य।
- (ठ) परिसमापन क्षति:- यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में आपूर्ति करने में विफल रहता है तो प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत की दर से या आपूर्ति आदेश मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा।
- (ड) भुगतान शर्त :- संतोषजनक आपूर्ति के बाद एम्स जोधपुर द्वारा निरीक्षण करने के बाद भुगतान किया जायेगा।
- (ढ) विवाद :- फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद याशर्तों की व्याख्या के संबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जाँच निदेशक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्धरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 2. नियम और शर्त :-

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का उद्धरण(Quotation) देना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को स्टेशनरी वस्तुओं के नमूनों को कोटेशन डालने के साथ प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होंगे नमूनों के जमा नहीं कराने की स्थिति में कोटेशन को निरस्त माना जायेगा तथा नमूनों के प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
3. सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का निर्णय समिति द्वारा समग्र आधार पर किया जायेगा। जो कि अंतिम निर्णय होगा।

उप-निदेशक(प्रशासन)

संलग्न:- अनुलग्न: 1. विनिर्देश अनुबंध  
2. मूल्य बोली का प्रारूप

अनुलग्न: 1. विनिर्देश अनुबंध

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन ईकाई	मात्रा	विशेष विवरण
01	Register 96 Page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	700	रजिस्टर भण्डार के नमूनों के अनुसार ही होना चाहिए
02	Register 192 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	700	
03	Register 288 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	500	
04	Register 384 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	500	
05	Register 480 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	400	

नोट:- 1. आपूर्तिकर्ता को स्टेशनरी वस्तुओं के नमूनों को प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराने होंगे हैं। प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

2. आपूर्तिकर्ता को स्टेशनरी वस्तुओं के नमूनों एवं आकार देखने के लिए प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष से दिनांक 10 व 11 जनवरी 2022 को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक (दोनों कार्य दिवस) उपस्थित होकर देख सकते हैं।

3. संस्थान के भण्डार में उपलब्ध रजिस्ट्रों (नमूनों एवं आकार) के आधार पर उक्त कार्य करने की दर प्रस्तुत करें। एवं भण्डार में उपलब्ध रजिस्ट्रों की हुबहु प्रिन्टिंग का कार्य होना चाहिए। रजिस्ट्रों की प्रिन्टिंग के कार्य में किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा।

4. इसके साथ ही देखे गये नमूनों के आधार पर ही दर ही दर प्रस्तुत करे।

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्न: 2

मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री मान उप-निदेशक (प्रशासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैंने/हमने..... स्टेशनरी वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण के लिए उद्घरण प्रस्तुत किया। पूछताछ संख्या स्टेशनरी वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण प्रशासन /स्टेशनरी/04/2021-22.एम्स.जेडीएच जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2022 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।
2. मैंने/हमने स्टेशनरी वस्तुओं के लिए कोटेशन का आमंत्रण के नियमों और शर्तों की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया है तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्घरण अस्वीकार कर दिया जाए।
3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन की ईकाई	मात्रा	दर बिना जीएसटी	जीएसटी कर	जीएसटी सहित दर	कुल राशि	एमआरपी
01	Register 96 Page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	700					
02	Register 192 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	700					
03	Register 288 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	500					
04	Register 384 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	500					
05	Register 480 page AIIMS Logo & Name Colour Printed Cover	Nos.	400					

नोट:- बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में की अपना कोटेशन उद्धृत करना है अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/स्टेशनरी/04/2021-22. एम्स. जेडीएच

दिनांक.....नाम.....

स्थान.....

फर्म/एजेंसी का नाम.....

जीएसटीआईएन नंबर.....

बैंक का नाम.....

बैंक खाता नम्बर.....

आईएफएससी कोड.....

शाखा का नाम.....

फोन नंबर.....

ईमेल.....

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प).....